

[श्री अशोक गहलोत]

रिकार्डर, कैंसेट, विदेशी कपड़ा, घी इत्यादि लाया जाता है एवं इसके बदले में भारत से पशु धन, पान के पत्ते, दहीने, रम, शराब की बोतलें, वीडियो पैकेट व फिल्मी किताबें बड़ी मात्रा में तस्करी द्वारा ले जाई जाती है। पाकिस्तान जाने वाला यह सामान वहां बेहद लोकप्रिय होने से तस्करी को भारी मुनाफा भी होता है। लेकिन अभी चौथे वर्ष लगातार अकाल पड़ने से ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि पशु पालकों तथा उनके पशुओं की हालत दयनीय हो गई है। वे जब अपनी गायों का जंगलों में चरने हेतु छोड़ते हैं तो तस्कर लोग गायों इत्यादि को मौका पा कर हक्का कर पाकिस्तान की तरफ ले जाते हैं एवं वहां पाकिस्तान की सीमा पर तस्करी के हाथों सौंप कर उन से विदेशी सोना व अन्य सामग्री प्राप्त कर लेते हैं।

मैं रक्षा मंत्री व गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अखिलम्ब सीमावर्ती चौकियों को निर्देश दें जिससे सख्ती से पेश आ कर सीमा पर हो रही पशुओं व अन्य कीमती सामग्री की तस्करी को रोका जा सके।

(v) SETTING UP OF A TUBE-WELLS CORPORATION IN RAJASTHAN TO AUGMENT WATER RESOURCES.

SHRI RAJESH PILOT (Bharatpur): I wish to bring the following matter of urgent public importance to the attention of the House under Rule 377:—

Even after 34 years of independence of our country, Rajasthan still remains one of the States which cannot provide even drinking water to all its villages and villagers have to work 4 Kms. to fetch drinking water. Time and

again it has been stressed that a Tubewell Corporation may be formed at the State level which can look after the interests of farmers and take the responsibility of digging a tubewells, because, at higher level the water is not fit for drinking; and even for irrigation purpose it is not useful. So, this Corporation would select places where water is fit for drinking as well as for irrigation purposes and could be utilised.

This Corporation would help in removing this deficiency and black-spot on the history of Rajasthan. On the one hand we are trying to send water in the space to a man who is arbitting in the sky, and, on the other hand, we cannot afford to give a glass of water to a citizen who is ploughing in the fields, working as labourer on the development schemes for the future of India. But the whole nation cannot give an assurance that he will have a glass of water whenever he needs it: I urge upon the Central Government to take up the matter with the State Government and help in all possible forms to remove this black spot from the history of Rajasthan and let soon there be a day when every citizen of the State at least could have food and water which is the minimum requirement for survival

(vi) WORKING OF HINDUSTHAN SAMACHAR NEWS AGENCY.

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : मैं मदत का ध्यान राष्ट्र भाषा हिन्दी और प्रान्तीय भाषाओं में काम करने वाली समाचार एजेंसी, हिन्दुस्तान समाचार के कर्मचारियों में व्यापक असन्तोष की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इसके कारण संस्था के बन्द होने की सम्भावना निकट दिखलाई पड़ती है।

हिन्दुस्तान समाचार के प्रबन्धकों ने अभी पालेवर एवार्ड लागू नहीं किया है। सिर्फ उसे कागज पर लागू किया है और